



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3064]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 18, 2019/भाद्र 27, 1941

No. 3064]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 2019/BHADRA 27, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2019

का.आ. 3349(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या **का.आ. 2052 (अ)** तारीख **21 जून, 2019**, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में बाईपासों के सन्निर्माण सहित, **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-200 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-49) के कि.मी. 240.000 से कि.मी.312.400 तक (बिलासपुर - उर्दावल सेक्शन)** तक के भूखण्ड पर निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख **"27 जून 2019 "** को **"दैनिक भास्कर (हिन्दी में)"** और **"क्रान्तिकारी संकेत (अंग्रेजी में)"** प्रकाशित किया गया था ;

और कुछ आक्षेप प्राप्त हुए थे, जिसकी सुनवाई कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आक्षेपों को अननुज्ञात कर लिया गया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-200 (नया रा. रा. सं.-49) के कि.मी. 240.000 से कि.मी. 312.400 तक (बिलासपुर - उर्दावल खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़		जिले का नाम: रायगढ़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: खरसिया				
	गांव का नाम: नवागांव				
1	फ़ॉर्म 18	निजी	कृषि	0.334	धनेश्वर, नीराबाई पिता सहसराम, फतुलाल पिता बैगाबुढ़वा, पावती पिता सिदार सिंह, जाति - कँवर, पता सा देह स्वामी (१८ से)
			कुल	0.334	

[फा. सं. RW/NH-37014/18/2010/NHDP-IVA/3A/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2019

S.O. 3349(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 2052 (E) dated 21.06.2019**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Building (Widening/ four-laning etc.) Maintenance, management and operation of **National Highway No. 200 (New N.H. No. 49)** on the stretch of land from **Km 240.000 to Km 312.400 (Bilaspur - Urdawal Section)** in district of **RAIGARH** in the state of **CHHATTISGARH including Bypass**.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**DAINIK BHASKAR in Hindi**” and “**KRANTIKARI SANKET in English**” dated **27.06.2019**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 240.000 to Km 312.400 Package -III (Bilaspur - Urdawal Section) of the National Highway -200 (NEW NH-49) in the state of CHHATTISGARH.

State: CHHATTISGARH			District: RAIGARH		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Kharsia				
	Village: Nawagaon				
1	From 18	Private	Agriculture	0.334	Dhaneshwar, Nirabai D/o Sahasram, Fattulal S/o baiga budhwa, Pawti D/o Sidar singh, Cast - Kanwar, Landlord. From 18
			TOTAL	0.334	

[F. No. RW/NH-37014/18/2010/NHDP-IVA/3A/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.